

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazetteएस.जी.-डी.एल.-अ.-29072024-255857
SG-DL-E-29072024-255857असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 192]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 25, 2024/श्रावण 3, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 114
No. 192]	DELHI, THURSDAY, JULY 25, 2024/SHRAVANA 3, 1946	[N. C. T. D. No. 114

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

रोजगार निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 23 जुलाई, 2024

सं. एफ 7 (236)/रोज./प्रशा./2023/6184—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 840 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा रोजगार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में "स्टाफ कार चालक, ग्रेड-II" के पद की भर्ती पद्धति से संबंधित निम्नलिखित भर्ती नियम का निर्माण करते हैं; अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :- (1) इन नियमों को "स्टाफ कार चालक, ग्रेड-II" भर्ती नियमावली, 2024, रोजगार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कहा जाए।
(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. भर्ती पद्धति, आयु-सीमा तथा अन्य योग्यताएं इत्यादि :-उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. अयोग्यता :-वह व्यक्ति,
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा
 - (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, तो वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।
5. शिथिल करने की शक्ति :-जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इस नियम के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।
6. बचाव :-इन नियमों में केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु-सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पद नाम	:	स्टाफ कार चालक (ग्रेड-II)
2.	पदों की संख्या	:	02*(2024) *परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स का स्तर-4 (25500-81100/-रुपये)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	गैर चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति द्वारा
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया	:	पदोन्नति :- ग्रेड में आठवर्षों (08) की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर- 02, रुपये 19900-63200/-में स्टाफ कार

	जाना है		<p>चालक (सामान्य ग्रेड) तथा उन्होंने परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा निर्दिष्ट ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण की हो।</p> <p>टीप :-जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है; व पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे' बशर्ते कि अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक हो अथवा दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी करली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p>
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	:	<p>समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रधान सचिव/सचिव (लो.नि.वि.) रा.रा.क्षे.दि.स. — अध्यक्ष 2. विभागाध्यक्ष (रोजगार) —सदस्य 3. उप-सचिव (श.वि.) रा.रा.क्षे.दि.स. —सदस्य <p>टीप :- यदि समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय स्थायीकरण समिति के किसी भी सदस्य से कनिष्ठ है, तो स्थायीकरण पर विचारार्थ विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूपमें कार्य करेगा।</p>
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
अरुण कुमार झा, संयुक्त सचिव

DIRECTORATE OF EMPLOYMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd July, 2024

No. F. 7 (236)/Emp/Admn./2023/6184—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification Number G.S.R 840, dated the 13th July, 1959, Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, is pleased to frame the following Recruitment Rules, regarding the method of recruitment to the post of "Staff Car Driver, Grade-II" in Directorate of Employment, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:

- 1. Short title and commencement:-** (i) These rules may be called "Staff Car Driver, Grade-II" Recruitment Rules, 2024 Directorate of Employment, Government of National Capital Territory of Delhi.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix:- The number of posts, its classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule attached thereto.

3. Method of Recruitment, Age limit and other qualifications, etc:- The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected there with shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications:- No person,

a. Who has entered or contracted marriage with the person having a spouse living or

b. Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person; shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for doing, exempt any person from the operation of these rules.

5. Power to relax:- Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, may relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of person.

6. Saving:- Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled castes and Scheduled Tribes and other specified category of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1	2	3	4	5	6
Name of the Post	Number of Posts	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non selection post	Age limits for Direct Recruits
Staff Car Driver (Grade-II)	02*(2024) *Subject to variation dependent on Work load	General Central Service, Group C, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-4 (Rs. 25500 -81100/-) of the pay matrix	Non-Selection	Not Applicable

7	8	9	10
Educational and other qualifications for direct recruits	Whether Age & Educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment/ promotion /deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

Not Applicable.	Not applicable	Not applicable	By Promotion.
-----------------	----------------	----------------	---------------

11	12	13
In case of recruitment By promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation /absorption to be made	If DPC exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making Recruitment
<p>Promotion:</p> <p>Staff Car Driver (Ordinary Grade) in the Pay level-2 (19900-63200/-) of the Pay Matrix with 08 years of regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Transport Department, GNCTD.</p> <p>Note: Where Junior who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for Promotion to the next higher grade along with their Juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p>	<p>Group 'C' DPC (for considering confirmation):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Principal Secretary/ Secretary (PWD) GNCT Delhi–Chairman 2. Head of the Department (Employment)–Member 3. Dy.Secretary (UD) GNCT of Delhi– Member. <p>Note:Senior most member of the Departmental Confirmation Committee for considering confirmation shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of the Committee happens to be junior to another member of the Departmental Confirmation Committee.</p>	Not Applicable

By Order and in the Name of the Hon'ble Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

ARUN KUMAR JHA, Jt. Secy.